

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त 2021 — श्रावण 21, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 17/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(50).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 83/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-87/2020/वाक/पांच(127) दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 694 तारीख 30 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक में “अप्रैल 2021” शब्दों और अंकों के बाद “और मई 2021” शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. इस अधिसूचना को 1 जून, 2021 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(50).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(50), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 17/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(50).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification No. 83/2020—State Tax, No. F 10-87/2020/CT/V(127), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 22nd December, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 694, dated the 30th December, 2020, namely:—

In the said notification, in the second proviso, after the word and figure “April, 2021”, the words and figure “and May, 2021” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 18/2021—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(51).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017—राज्य कर क्रमांक एफ-10-44/2017/वाक/पांच(87) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 256 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, —

- (i) शब्दों, अक्षरों और अंकों “जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं”, के स्थान पर, शब्दों “जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, “कर अवधि” शब्दों, के स्थान पर, “माह/तिमाही” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021

6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18 वें दिन से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(51).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(51), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 18/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(51).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification No. 13/2017—State Tax, No. F-10-44/2017/CT/V(87), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 29th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 256, dated the 29th June, 2017 namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- for the words, letters and figure “required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax”, the words “liable to pay tax but fail to do so” shall be substituted;
- in the Table, in column 4, in the heading, for the words “Tax period”, the words “Month/Quarter” shall be substituted;
- in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021

		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

सं. 19/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(52).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 76/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(123) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 523 तारीख 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के

(i) आठवे परंतुक में, तालिका के स्थान पर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक
		अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक
		मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी — मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक”।

(ii) आठवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: —

“परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शुन्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देह विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह/त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून 2021 की कर अवधि से या जून 2021 को खत्म तिमाही की कर अवधि से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: —

तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शुन्य है	रुपये दो सौ पचास
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये एक हजार
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये दो हजार पांच सौ” I

2. इस अधिसूचना को 1 जून, 2021 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(52).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(52), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION No. 19/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(52).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 76/2018-State Tax, No. F-10-65/2018/CT/V(123), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 523, dated the 31st December, 2018, namely:—

In the said notification, -

(i) in the eighth proviso, with effect from the 20th day of May, 2021, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	March, 2021, April, 2021 and May, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return
		April, 2021	Forty-five days from the due date of furnishing return
		May, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return.”;

(ii) after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months/quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months / quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons whose total amount of state tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

सं. 20/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच (53).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 4/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(3) दिनांक 24 जनवरी, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 31-अ तारीख 25 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो प्ररूप जीएसटीआर- 1 में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्: —

तालिका

क्रमांक (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	राशि (3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है	दो सौ पचास रुपये
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1. 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1. 5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	दो हजार पांच सौ रुपये

2. इस अधिसूचना को 1 जून, 2021 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच (53).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच (53), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 20/2021-State Tax

No. F 10- 40/2021/CT/V(53).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 04/2018-State Tax, No. F-10-2/2018/CT/V(3), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 24th January, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 31 -A, dated the 25th January, 2018, namely:—

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onward, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR-1 by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons who have nil outward supplies in the tax period	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Registered persons having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

सं. 21/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(54).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 73/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-98/2017/वाक/पांच(187) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 581 तारीख 30 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा—

- जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल राशि शून्य है;
- जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (प) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है |

2. इस अधिसूचना को 1 जून, 2021 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(54).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(54) दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 21/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(54).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 73/2017–State Tax, No. F-10-98/2017/CT/V(187), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 581, dated the 30th December, 2017, namely:—

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for financial year 2021-22 onwards, by the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-4 by the due date, shall stand waived -

- (i) which is in excess of two hundred and fifty rupees where the total amount of state tax payable in the said return is nil;
- (ii) which is in excess of one thousand rupees for the registered persons other than those covered under clause(i).”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 22/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(55).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस की राशि को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है का अधित्यजन किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना को 1 जून, 2021 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(55).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(55) दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 22/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(55).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 23/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(56).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2020-राज्य कर क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(37) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में "ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनसे भिन्न" शब्दों के पश्चात "एक सरकारी विभाग, एक स्थानीय निकाय," शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. इस अधिसूचना को 1 जून, 2021 से लागू माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(56), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 23/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(56).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification No. 13/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(37), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the words “notifies registered person, other than”, the words “a government department, a local authority,” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 24/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(57).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 14/2021-राज्य कर क्रमांक एफ-10-38/2021/वाक/पांच(46) दिनांक 18 जून, 2021 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में —

(i) खंड (i) में, —

1. “मई, 2021 के 30वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर “जून, 2021 के 29वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. “मई, 2021 के 31वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर “जून, 2021 के 30वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खंड (i) के परंतुक में, —

1. “मई, 2021 के 31वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर “जून, 2021 के 30वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. “जून, 2021 के 15वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर “जुलाई, 2021 के 15वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड (ii) में, —

1. “मई, 2021 के 30वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर “जून, 2021 के 29वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. “मई, 2021 के 31वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर “जून, 2021 के 30वे दिन” अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना मई, 2021 के 30वे दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(57).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(57), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 24/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(57).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 14/2021-State Tax, No. F-10-38/2021/CT/V(46), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 18th June, 2021, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

(i) in clause (i),—

- a. for the figures, letters and words “30th day of May, 2021”, the figures, letters and words “29th day of June, 2021” shall be substituted;
- b. for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “30th day of June, 2021” shall be substituted;

(ii) in proviso to clause (i), —

- a. for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “30th day of June, 2021” shall be substituted;
- b. for the figures, letters and words “15th day of June, 2021”, the figures, letters and words “15th day of July, 2021” shall be substituted;

(iii) in clause (ii),—

- a. for the figures, letters and words “30th day of May, 2021”, the figures, letters and words “29th day of June, 2021” shall be substituted;
- b. for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “30th day of June, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 25/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(58).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 21/2019-राज्य कर क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46) दिनांक 23 अप्रैल, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 131 तारीख 24 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, द्वितीय परंतुक में, “मई 2021 के 31वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “जुलाई 2021 के 31वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना मई 2021 के 31वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(58).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(58), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 25/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(58).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 21/2019—State Tax, No. F-10-19/2019/CT/V(46), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 131, dated the 24th April, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, in the second proviso, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “31st day of July, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना
सं. 26/2021—राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(59).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 45 के उप नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, बोर्ड कि अनुमति से, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2021—राज्य कर क्रमांक एफ-10-38/2021/वाक/पांच(43) दिनांक 18 जून, 2021 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में “मई 2021 के 31वें दिन” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “जून 2021 के 30वें दिन” शब्दों, अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 31 मई 2021 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(59).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(59), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION
No. 26/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(59).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, with the approval of the Board, hereby makes the following amendment in the notification No. 11/2021—State Tax, No. F-10-38/2021/CT/V(43), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 18th June, 2021, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “30th day of June, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

सं. 27/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(60).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये दिनांक 1 जून, 2021 से प्रवृत्त माने जाएंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में, ———

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में चौथे परंतुक में, "31 मई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों, के स्थान पर, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । इस नियम को मई, 2021 के 31वें दिन से लागू माना जाएगा ।

(ii) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।";

(iii) नियम 59 के उपनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(60).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2021/वाक/पांच(60), दिनांक 29-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राजपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION

No. 27/2021-State Tax

No. F 10-40/2021/CT/V(60).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the state Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force on 1st day of June, 2021.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

(i) in sub-rule (1) of rule 26, in the fourth proviso, with effect from the 31st day of May, 2021, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “31st day of August, 2021” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4) of rule 36, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”;

(iii) in sub-rule (2) of rule 59, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1st day of June, 2021 till the 28th day of June, 2021.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.